



मैसिव ओपन ऑनलाइन कोर्स (मूक)
अंतरिक्ष विज्ञान और प्रौद्योगिकी का अवलोकन
(06 जून - 05 जुलाई, 2022)

लक्षित प्रतिभागी - स्कूली छात्र

दिनांक: 16 मई, 2022

पाठ्यक्रम दिशानिर्देश

प्रिय छात्रों,

भारतीय सुदूर संवेदन संस्थान, इसरो, देहरादून द्वारा संचालित "अंतरिक्ष विज्ञान और प्रौद्योगिकी का अवलोकन" पाठ्यक्रम में आपका स्वागत है। अपने ऑनलाइन पाठ्यक्रम पर आगे बढ़ने से पहले कृपया निम्नलिखित दिशानिर्देशों को बहुत ध्यान से पढ़ें:

पाठ्यक्रम में भाग लेने की प्रक्रिया:

- कृपया नीचे दिये गए यूआरएल के माध्यम से पाठ्यक्रम के लिए पंजीकरण करें-
<https://isat.iirs.gov.in/mooc.php>
- उपरोक्त वेबसाइट में सफलतापूर्वक पंजीकरण और आपके अकाउंट के सक्रिय होने पर, आपको ई-मेल के माध्यम से ई-क्लास लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम (एलएमएस) के लिए अपना लॉगिन क्रेडेंशियल प्राप्त होगा।
- दैनिक तकनीकी सत्र तथा लर्निंग संसाधन आईआईआरएस ई-क्लास एलएमएस पोर्टल पर आपके लॉग इन में उपलब्ध रहेंगे। अपने पाठ्यक्रम को एक्सैस करने के लिए कृपया निम्नलिखित यूआरएल में लॉग इन करें:
<https://eclass-intl-lms.iirs.gov.in/login/index.php>
- इस कोर्स के दौरान कुल 10 घंटे के ऑनलाइन वीडियो सत्र आयोजित किए जाएंगे। छात्र अपनी सुविधानुसार वीडियो सत्र देख सकते हैं। आप इसे कई बार देख सकते हैं। वीडियो वॉच लॉग के आधार पर, उस सत्र के लिए आपकी उपस्थिति को चिह्नित किया जाएगा।
- आप अपने भविष्य के संदर्भों के लिए ई-क्लास एलएमएस से अध्ययन सामग्री का पीडीएफ संस्करण भी डाउनलोड कर सकते हैं।
- एक बार वीडियो सत्र पूरा होने पर, कृपया ई-क्लास एलएमएस में उपलब्ध प्रश्नोत्तरी में भाग लें।
- ई-क्लास एलएमएस में आपके अकाउंट के तहत सभी तकनीकी सत्र और लर्निंग संसाधन 05 जुलाई, 2022 तक उपलब्ध रहेंगे। आप अपना कोर्स 06 जून, 2022 से 05 जुलाई, 2022 के दौरान पूरा कर सकते हैं।
- सहयोगात्मक शिक्षण के लिए ई-क्लास एलएमएस में चर्चा मंच भी उपलब्ध है। आप अपने प्रश्नों और शंकाओं को चर्चा मंच में पोस्ट कर सकते हैं।
- ई-क्लास एलएमएस के माध्यम से अपना पाठ्यक्रम प्रमाणपत्र प्राप्त करने के लिए पहले आपको पाठ्यक्रम फीडबैक जमा करना होगा।

- आप पाठ्यक्रम के दौरान किसी भी समय निम्न यूआरएल पर जाकर अपना लॉगिन क्रेडेंशियल पुनर्प्राप्त कर सकते हैं-

<https://eclass-intl-lms.iirs.gov.in/login/index.php>.

प्रमाणपत्र पुरस्करण :

तकनीकी सत्रों में आपकी उपस्थिति और ऑनलाइन प्रश्नोत्तरी में आपके स्कोर के आधार पर आईआईआरएस, इसरो से पाठ्यक्रम भागीदारी प्रमाणपत्र प्रदान किया जाएगा। प्रश्नोत्तरी में न्यूनतम 60% अंक और वीडियो सत्र में 70% उपस्थिति पाठ्यक्रम भागीदारी प्रमाण पत्र प्राप्त करने के लिए आवश्यक है।